



The Yamuna Syndicate Limited

Regd. Office : Radaur Road, Yamuna Nagar (Haryana)

Uploaded on BSE Listing Centre/ Website : <http://listing.bseindia.com>

HO/CS/

July 31, 2024

Manager-Department of Corporate
Services,BSE Limited,
Registered Office :Floor 25,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Dear Sir/Madam

Scrip Code : 540980 Scrip Id : YSL

Subject : Newspaper Advertisements for intimating 70th Annual General Meeting to be held through video conferencing (VC) or other Audio Visual Means(OAVM)"

1. Pursuant to Regulation 30, 47 read with Schedule III and any other applicable regulation(s) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly note that the Company has published a public notice today i.e. July 31, 2024 in **Business Standard (English daily newspaper all edition)** and **Business Standard (Hindi daily newspaper)**, , intimating to shareholders that 70th Annual General Meeting will be held through video conferencing (VC) or other Audio Visual Means(OAVM) on **August 30, 2024 at 11.00AM**, and all other information as required to be published under General Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020 read with all other relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs with regard to Annual General Meeting through video conferencing (VC) or other Audio Visual Means(OAVM).
2. We have also prescribed manner for registration/updation KYC documents in the aforesaid publication, for physical shareholders in compliance with SEBI circular date November 3, 2021 (subsequently amended by circular dated December 14, 2021, March 16, 2023 and November 17, 2023).
3. Copies of the said advertisement are enclosed
4. This intimation is also being uploaded on the website of the Company at www.yamunasyndicate.com under section : <https://www.yamunasyndicate.com/YamunaSyndicateAdvertisement.html>
5. The above is for your information and record please.

Yours Faithfully,

For The Yamuna Syndicate Ltd.

(Ashish Kumar)
Company Secretary and Compliance Officer

CORPORATE IDENTITY NUMBER (CIN)

L24101HR199PLC001837

Website : www.yamunasyndicate.com

Tel : +91-1732-255479

E-mail : ceo@yamunasyndicate.com

companysecretary@yamunasyndicate.com

cfo@yamunasyndicate.com

LOYDYS METALS AND ENERGY LIMITED

Regd. Office: Plot No A-1-2, MIDC Area, Ghugus, Dist. Chandrapur, Maharashtra - 442055 Tel No.: 07172 285103/398
Corporate Office: A-2, 2nd Floor Madhu Estate, Pandurang Budhkar Marg, Lower Pareil, Mumbai - 400013 Tel No.: 022-6291 6111
CIN: L43000MH1979P019084 | Website: www.loydys.in | Email: investor@loydys.in

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2024

(₹ in Crores except per share data)

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated				
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended		
		30th June, 2024	31st March, 2024	30th June, 2023	31st March, 2024	30th June, 2023	31st March, 2024		
1	Total Income from Operations	2,423.06	1,582.35	1,977.38	6,574.57	2,423.06	1,582.35	1,977.38	6,574.57
2	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	703.95	447.74	539.65	1,726.71	703.97	447.63	539.66	1,726.53
3	Net Profit / (Loss) for the period (after tax) (Including Exceptional and/or Extraordinary Items)	557.46	277.06	403.25	1,243.15	557.40	276.91	403.26	1,242.93
4	Total Comprehensive Income for the period (Including Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	556.17	278.26	403.43	1,245.90	556.08	279.11	403.44	1,245.68
5	Basic Earnings Per Share (₹)	20.23	20.32	20.48	59.23	20.23	20.33	20.48	59.23
6	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet	3,350.31	2,760.41	1,888.83	2,760.41	3,350.38	2,760.34	1,888.83	2,760.34
7	Basic Earnings Per Share (₹) (continued)	11.06	5.49	7.99	24.82	11.06	5.49	7.99	24.82
8	Diluted Earnings Per Share (₹) (continued)	10.96	5.45	7.93	24.43	10.96	5.45	7.93	24.43

Note:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular No. CIR/CFD/CFO/2024/001 dated 11th July 2024. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the Company's website at www.loydys.in.
- The financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 30th July, 2024.
- Previous period figures have been regrouped / reclassified where ever necessary.

For Loydys Metals and Energy Limited
Sd/-
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN: 00259739

Date: 30th July, 2024
Place: Mumbai

NOTICE

SBI MUTUAL FUND
A TRUST FOR FUTURE

Scheme-wise Annual Report and Abridged Annual Report of the Schemes of SBI Mutual Fund.

Notice is hereby given that in terms of Regulation 54 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.4.5 of the SEBI Master Circular for Mutual Funds dated June 27, 2024, the scheme wise annual report and the abridged annual report ("the Reports") of the Schemes of SBI Mutual Fund for the period ended March 31, 2024 have been hosted on the website of mutual fund viz. www.sbimf.com and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com. Investors may accordingly view / download the Reports from the above mentioned websites.

Investors can also request for the physical or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged annual report through telephone (contact us on our Toll Free Nos. 1800 209 3333/1800 425 5425), email (customer.delight@sbimf.com) or by submitting written request at any of the branch of AMC or CAMS (Computer Age Management Services Ltd.), details of which are available on www.sbimf.com.

For SBI Funds Management Limited
Sd/-
Shamsher Singh
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: July 30, 2024

Asset Management Company: SBI Funds Management Limited (A Joint Venture between SBI & AMUNDI) (CIN: U65999MH1992P01005289). **Trustee:** SBI Mutual Fund Trustee Company Private Limited (CIN: U65999MH2003PTC1384896). **Sponsor:** State Bank of India. **Regd Office:** 9th Floor, Cressonco, C - 38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051
Tel: 91-022-61793000 • **Fax:** 91-022-67426867 • **E-mail:** partnerforlife@sbi.com • www.sbimf.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SBIMF/2024/JUL/03

MANORAMA INDUSTRIES LIMITED
CIN: L15142MH2005PLC243687

Registered Office: Office No. 403, 4th Floor, Midas, Sahar Plaza, Andheri Kuria Road, Andheri East, Mumbai, Maharashtra - 400059 India
Email: info@manoramagroup.co.in | www.manoramagroup.co.in
Telephone No.: 022-6708149

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

Amount in Lakhs

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2024/31.03.2024		30.06.2023/31.03.2024	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	13,749.99	13,310.97	11,475.70	47,023.33
2	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1822.87	1389.97	1646.83	5317.15
3	Net Profit / (Loss) for the period (after tax) (Including Exceptional and/or Extraordinary Items)	1822.87	1389.97	1646.83	5317.15
4	Net Profit / (Loss) for the period (after tax) (Including Exceptional and/or Extraordinary Items)	1353.98	1250.47	1155.34	4101.87
5	Total Comprehensive Income for the period (Including Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1353.98	1250.47	1155.34	4101.87
6	Earnings Per Share (₹)	1233.37	1244.48	1159.57	4009.57
7	Equity Share Capital	1,191.98	1,191.98	1,191.98	1,191.98
8	Reserves/Contingent Reserves/ Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				32508.81
9	Earnings Per Share (₹) (continued)	2.27	2.10	1.94	6.73
10	Diluted:	2.27	2.10	1.94	6.72

Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 is available on the website of National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com and BSE Limited i.e. www.bseindia.com and on the website of the Company i.e. www.manoramaindustries.com

For Manorama Industries Limited
Sd/-
Gautam Kumar Pal
Managing Director
DIN: 07645652

Place: Raipur
Date: July 30, 2024

CG POWER AND INDUSTRIALS SOLUTIONS LIMITED

CIN No: L99999MH1937PLC026241
Registered Office: 6th Floor, CG House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030
Tel No.: 022-2423 7777, Fax No.: 022 2423 7733
E-mail: investorservices@cgglobal.com | Website: www.cgglobal.com

Notice of Postal Ballot of the Company

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

In accordance with Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended from time to time), including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended from time to time) ("SEBI (LODR) Regulations"), Secretarial Standard issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings ("SS-2") and the relaxations and clarifications issued by the Ministry of Corporate Affairs vide General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, 22/2020 dated 15th June 2020, 33/2020 dated 28th September 2020, 39/2020 dated 31st December 2020, 10/2021 dated 23rd June 2021, 20/2021 dated 09th December 2021, 3/2022 dated 5th May 2022, 11/2022 dated 28th December 2022 and General Circular No. 9/2023 dated 25th September 2023 and as amended from time to time (collectively the "MCA Circulars"), and other applicable laws and regulations, if any, that the proposed resolution appended below for approval of the Members of CG Power and Industrial Solutions Limited ("the Company") through Postal Ballot by way of remote e-voting process ("remote e-voting"):

Item No. 1: Appointment of Mr. Amar Kulk (DIN: 07574081) as Managing Director & CEO of the Company for a term of five years with effect from 25th July 2024 and the terms of remuneration thereof. (Ordinary Resolution).

In terms of the MCA Circulars, the Notice of Postal Ballot dated 24th July 2024 ("Notice") has been sent through electronic mode to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/ Company Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") i.e. Datamatics Business Solutions Limited (earlier known as Datamatics Financial Services Limited). The electronic dispatch of the Notice has been completed on 30th July 2024. The Notice of Postal Ballot inter-alia indicating the process and manner of remote e-voting is also available on the Company's website www.cgglobal.com, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and on the website of National Securities Depositories Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. The voting results will also be communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange, and NSDL and the same shall be available in their respective websites.

Members seeking inspection of relevant documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement under Section 102 of the Act may send an email to investorservices@cgglobal.com from their registered e-mail addresses upto the last date of remote e-voting i.e. Thursday, 29th August 2024 mentioning their name, Folio no. / Client ID and DP ID and the documents they wish to inspect.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations and the SS-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the electronic voting facility through NSDL at www.evoting.nsdl.com to enable its Members to cast their vote by electronic means in respect of the business proposed to be transacted. The details pursuant to the Act read with the Rules, SS-2 and MCA Circulars are as under:

- Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on April, 26th July 2024 ("the Cut-off Date") only shall be eligible to exercise their right to vote by remote e-voting. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat the Notice of Postal Ballot for information purposes only.
- Manner of registering/updating email addresses:**
 - In case shares are held in physical mode please send a request by email to the RTA at cginvestors@datamaticsbsp.com by providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card).
 - In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID or beneficiary ID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investorservices@cgglobal.com. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) of the Notice i.e. Login method for e-voting for individual shareholders holding securities in demat mode.
 - Alternatively shareholders/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
 - In terms of SEBI circular dated 9th December 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-voting facility.
- Manner of casting vote through e-voting:**

Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the business as set forth in the Notice of Postal Ballot through e-voting system. The login credentials for casting the votes through e-voting shall be available to the Members through email after successfully registering their email addresses in the manner provided above. The detailed procedure for casting the votes through e-voting is provided in the Notice of Postal Ballot. The details are also made available on the website of the Company.
- The remote e-voting period will commence on **Wednesday, 31st July 2024 at 09:00 a.m. (IST) and end on Thursday, 29th August 2024 at 05:00 p.m. (IST)**. The remote e-voting mode shall be disabled for voting thereafter by NSDL and voting shall not be allowed.
- Once the vote on a resolutions is cast, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- All the Members of the Company as on the Cut-off Date (including those Members who may not have received the Notice due to non-registration of their e-mail addresses with the Company/RTA/Depositories) shall be entitled to vote in relation to the proposed business in accordance with the process specified in the Notice of Postal Ballot.
- Mr. Prashant S. Mehta (Membership No. ACS 5814), Proprietor of M/s. P. Mehta & Associates, Practising Company Secretaries (C.P. No. 17341), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting during the Postal Ballot in a fair and transparent manner.
- Members may refer to the AGM Notice for detailed instructions on remote e-voting and e-voting during the AGM and participation through VCO/OAVM for the AGM. Please refer the "e-voting user manual" for Members available in the download section of the e-voting website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. In case of any queries/grievances relating to e-voting procedure or require any assistance for attending the AGM and during the AGM you may contact:

MCX
METAL & ENERGY
Trade with Trust

MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LIMITED

CIN: L151909MH2002PLC135594
Regd. Office: Exchange Square, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093
Tel: 022 6731 8888; Email id: ig-mcx@mcxindia.com; www.mcxindia.com

INFORMATION REGARDING THE TWENTY-SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Shareholders may please note that, the **22nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 26, 2024 at 11:30 a.m. (IST) through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM)** without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, (the 'Act') and the Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 20/2020, 2/2022, 10/2022 and 09/2023 issued by Ministry of Corporate Affairs, Circular Nos. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India and other applicable circulars issued in this regard (collectively referred to as "Circulars"), to transact the businesses that will be set forth in the Notice convening 22nd AGM.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of 22nd AGM and Annual Report for FY 2023-24 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/ KfIn Technologies Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA).

Members who have not registered their email address may refer to the Notice of 22nd AGM for detailed instructions for participating in the remote e-voting / e-AGM / e-voting during e-AGM. The Notice of 22nd AGM and Annual Report for FY 2023-24 will be made available on the Company's website at www.mcxindia.com; website of the stock exchange, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Shareholders may please note that the Board of Directors, at their meeting held on April 23, 2024, have recommended a final dividend of ₹ 7.64/- per share for FY 2023-24, subject to approval of the shareholders at the AGM. The record date for the purpose of final dividend will be **Thursday, September 19, 2024**. The final dividend, once approved by the members in the ensuing AGM will be paid to the Members within 30 days from the date of declaration, electronically through various online transfer modes to those members who have updated their bank account details. Shareholders are urged to utilize the Electronic Clearing system ("ECS") facility for receiving dividend. Shareholders whose email addresses / bank details for receiving dividend are not registered / updated are requested to do the same by following the procedure given below:

- Shareholders holding shares in dematerialised mode can get their e-mail ID / bank details registered / updated only by contacting their respective Depository Participant(s).
- SEBI vide circular dated November 3, 2021, read with subsequent circulars issued in this regard, has mandated registration of PAN, KYC details and Nomination, by holders of physical securities. As per the said mandate, shareholders holding shares in physical form, whose folios/s are not updated with any of the KYC details (i) PAN (ii) Choice of Nomination/(iii) Contact details; (iv) Mobile Number; (v) Bank Account details; and (vi) Signature shall be eligible for any payment including dividend, interest or redemption in respect of such folios, only through electronic mode with effect from April 1, 2024. In accordance with the above, dividend, in respect of physical folios wherein any of the above KYC details (except choice of Nomination) are not updated before the Record Date, will be held back by the Company. Shareholders may please note that the dividends will get credited to their bank account only after the KYC details are updated in the folio.

Shareholders are requested to register / update these details by sending duly filled in Form ISR-1, ISR-2, ISR-3 and SH-13, as applicable, along with relevant proofs to our RTA, KfIn Technologies Limited, Unit: Multi Commodity Exchange of India Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or by mailing the scan copies of the documents, duly e-Signed, from their email id registered with RTA at enward.ris@kfinfintech.com Format of forms are available on the Company's website at <https://www.mcxindia.com/investor-relations>

Further, shareholders may note that as per the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company after April 1, 2020, shall be taxable in the hands of the shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source at the time of making the payment of the said dividend. The respective shareholders claiming the exemption or other applicable benefit are requested to refer the Notice of the AGM for detailed instructions and documentation in this regard. Kindly note that the documents referred in the Notice, are required to be sent on Company's designated email id: divident@mcxindia.com on or before **Thursday, September 19, 2024**.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") through NSDL to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of 22nd AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-Voting / e-Voting during the AGM / attending the AGM virtually will be provided in the Notice of the AGM

In case of any queries regarding e-AGM or e-voting, shareholders may write to evoting@nsdl.co.in or contact at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. Members attending the AGM through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.

We also request you to disclose your shareholding in the Company along with the shareholding of your Persons Acting in Concert (PAC), if any. "PAC" is defined under Reg. 2(c) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

For Multi Commodity Exchange of India Limited
Sd/-
Manisha Thakur
Company Secretary
Membership No: A10855

Place: Mumbai
Date: July 30, 2024

SALE NOTICE (IN LIQUIDATION)
(A Company under Liquidation under Insolvency and Bankruptcy Code dated 16th March 2021)
K.S. OILS LIMITED (In Liquidation)
Registered Office: Jawahar Nagar, Morasa-470001, Maharashtra
CIN: L15141MP1989PLC003711

E-Auction
Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
Date & Time of Auction: 30th August 2024 from 12:00 noon till 04:00 PM (IST)
(With unlimited extension of 5 minutes each)
Last Date of Submission of Bids: 27th August 2024 (Upto 11:59PM IST)
Last Date of E-mail Submission: 27th August 2024 (Upto 5PM IST)

Sale of Assets and Proceeds owned by **K.S. Oils Limited (In Liquidation)** ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Adjudicator Tribunal vide order dated 16.03.2021.

Sl. No.	Block No.	Details of assets	Reserve Price (₹)	Estimated Value (₹)	Incremental Bid Value (₹)
1.	Block A	Leasehold rights in land along with construction there on including Plant & Machinery and all other movable assets at Manufacturing Unit at Maaza Dibhng, J.L. No. 149, P.S. Bhabhanpur, District. Purba Medinipur, India. West Bengal. Leasehold land measuring 20.89 acres more or less. Lease periods as follows: 17.5 years from 24.4.2009 to 21.03.2026 21.03.2026 to 24.4.2009 to 31.12.27 acres: 29 years from 20.4.2005	57,10,54,500	57,10,00,000	50,00,000
2.	Block B	All Plant & Machinery and all other movable assets at Manufacturing Unit at Maaza Dibhng, J.L. No. 149, P.S. Bhabhanpur, District. Purba Medinipur, India. West Bengal.	32,85,76,500	3,28,00,000	25,00,000

Important Notes:

- The Liquidator will conduct an "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS, WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RESCUE BASIS" through approved service provider M/S. E-procurement Technologies Limited (Auctioneer).
- All the terms and conditions are mandatorily referred from the E-Auction Process Information Document prior to submission of EMD and participation in the process. The Complete E-Auction process document is available on website of the e-auction service provider at <https://www.auctioneer.net>.
- The Liquidator in consultation with Stakeholders' Consultation Committee, shall hold absolute right of selection to participate in selection between **Block A and Block B**.
- The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction service provider M/s-e-procurement Technologies Limited (Auctioneer) at <https://www.auctioneer.net>.
- The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent enquiry regarding the title property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. The Liquidator shall not be liable to clear any claim raised upon the Corporate Debtor except as specifically provided in IRC, 2016.

Sd/-
KULDEEP VERMA
Liquidator of K.S. Oils Limited
Regn. no. IBSL/PA-001/PD001/CL2015/171003
46, 88 Ganany Street, 5th Floor Unit No 501 Kalanika 700012
E: kuverma@nslm.com | kuverma@nslm.com
Place: Kolkata
Date: 31.7.2024
Authorisation for Assignment (APA) - Valid till 14.12.2024

LOYDYS METALS AND ENERGY LIMITED

Regd. Office: Plot No A-1-2, MIDC Area, Ghugus, Dist. Chandrapur, Maharashtra - 442055 Tel No.: 07172 285103/398
Corporate Office: A-2, 2nd Floor Madhu Estate, Pandurang Budhkar Marg, Lower Pareil, Mumbai - 400013 Tel No.: 022-6291 6111
CIN: L43000MH1979P019084 | Website: www.loydys.in | Email: investor@loydys.in

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2024

(₹ in Crores except per share data)

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated				
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended		
		30th June, 2024	31st March, 2024	30th June, 2023	31st March, 2024	30th June, 2023	31st March, 2024		
1	Total Income from Operations	2,423.06	1,582.35	1,977.38	6,574.57	2,423.06	1,582.35	1,977.38	6,574.57
2	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	703.95	447.74	539.65	1,726.71	703.97	447.63	539.66	1,726.53
3	Net Profit / (Loss) for the period (after tax) (Including Exceptional and/or Extraordinary Items)	557.46	277.06	403.25	1,243.15	557.40	276.91	403.26	1,242.93
4	Total Comprehensive Income for the period (Including Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	556.17	278.26	403.43	1,245.90	556.08	279.11	403.44	1,245.68
5	Basic Earnings Per Share (₹)	20.23	20.32	20.48	59.23	20.23	20.33	20.48	59.23
6	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet	3,350.31	2,760.41	1,888.83	2,760.41	3,350.38	2,760.34	1,888.83	2,760.34
7	Basic Earnings Per Share (₹) (continued)	11.06	5.49	7.99	24.82	11.06	5.49	7.99	24.82
8	Diluted Earnings Per Share (₹) (continued)	10.96	5.45	7.93	24.43	10.96	5.45	7.93	24.43

Note:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular No. CIR/CFD/CFO/2024/001 dated 11th July 2024. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the Company's website at www.loydys.in.
- The financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 30th July, 2024.
- Previous period figures have been regrouped / reclassified where ever necessary.

For Loydys Metals and Energy Limited
Sd/-
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN: 00259739

Date: 30th July, 2024
Place: Mumbai

CG Power and Industrial Solutions Limited

CIN No: L99999MH1937PLC026241
Registered Office: 6th Floor, CG House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030
Tel No.: 022-2423 7777, Fax No.: 022 2423 7733
E-mail: investorservices@cgglobal.com | Website: www.cgglobal.com

Notice of Postal Ballot of the Company

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

In accordance with Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended from time to time), including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended from time to time) ("SEBI (LODR) Regulations"), Secretarial Standard

